

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2024—फाल्गुन 11 शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, समाहांत बुधवार, दिनांक 25-10-2023

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

क्र.	जिला	तहसील				
		1. मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक	17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक	35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक	53.2 मि.मी. से 249.9 मि.मी. तक	250.0 मि.मी. से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बलौदाबाजार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	गरियाबंद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	महासमुन्द	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	धमतरी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	दुर्ग	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	बेमेतरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8.	बालोद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
9.	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
10.	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	छुईखदान, सालहेवारा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	मोहला-मानपुर- अम्बागढ़-चौकी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
12.	कबीरधाम	पंडरिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
13.	बस्तर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	कोण्डागांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
15.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16.	कांकेर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	दंतेवाड़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
18.	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
19.	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
20.	बिलासपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21.	गौरैला-पेण्ड्रा- मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
22.	मुंगेली	लोरमी, लालपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
23.	जांजगीर-चांपा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
24.	सक्ती	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
25.	कोरबा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
26.	सरगुजा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
27.	सूरजपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	बलरामपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
29.	कोरिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
30.	मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर	चिरमिरी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
31.	रायगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
32.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
33.	जशपुर	कुनकुरी, दुलदुला, फरसाबहार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.**—कुछ जिलों में रबी फसल की जुताई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. **सिंचाई.**— बेमेतरा, सूरजपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **कटाई.**— प्रायः कुछ जिलों में धान सोयाबीन व मक्का की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर, गरियाबंद व धमतरी में फसल की हालत सुधरी है। जिला महासमुंद, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, जांजगीर-चाम्पा, सक्ती, कोरबा में फसल की हालत सामान्य है। जिला बस्तर में धान, मक्का व अन्य फसल की हालत सामान्य है। जिला नारायणपुर में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल व गन्ना फसल की हालत सामान्य है। जिला कांकेर में फसल की हालत सामान्य है। जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ एवं कुल्थी फसल की हालत सामान्य है। जिला सुकमा में धान, मक्का फसल की हालत सामान्य है। जिला बीजापुर में धान फसल की हालत सामान्य है। जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है। जिला सूरजपुर में धान, मक्का, अरहर, उड़द व मूंगफली फसल की हालत सामान्य है। जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है। जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में धान, मक्का, अरहर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल, रामतिल, कुल्थी व राई की हालत सामान्य है। जिला कोरिया में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल व अन्य फसल की हालत सामान्य है। जिला रायगढ़ में धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल, अम्बाड़ी, गन्ना व कुल्थी फसल की हालत सुधरी है। जिला जशपुर में धान व मूंगफली फसल की हालत सामान्य है।

6. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **खेतीहर श्रमिक.**— खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25-10-2023

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धरसीवा	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. आरंग	..				
4. मंदिर हसौद	..				
5. अभनपुर	..				
6. गोबरा नवापारा	..				
7. तिल्दा	..				
8. खरोरा	..				
जिला-बलौदा-	मिलीमीटर				
बाजार-भाटापारा					
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पलारी	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लवन	..				
4. भाटापारा	..				
5. सिमगा	..				
6. सुहेला	..				
7. कसडोल	..				
8. टुण्डरा	..				
9. सोनाखान	..				
जिला-गरियाबंद	मिलीमीटर				
बिन्धानवागढ़					
1. गरियाबंद	..	2. रबी फसल की जुताई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	..				
4. मैनपुर	..				
5. देवभोग	..				
6. अमलीपदर	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पिथौरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	..				
4. सरायपाली	..				
5. बसना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. धान की खड़ी फसल पर	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरुद	..	तनाछेदक व भूराभाहू होने	4. (1) धान की कटाई का कार्य जारी है,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	..	की जानकारी मिली है.	फसल की हालत सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
4. नगरी	..		(2) ..		
5. भखारा	..				
6. कुकरेल	..				
7. बेलरगांव	..				
*जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. धमधा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पाटन	..		(2) ..		
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	..	2. कीट प्रकोप की शिकायत	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	..	है उपचार जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. देवकर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. बेरला	..				
5. भिभौरी	..				
6. बेमेतरा	..				
7. नवागढ़	..				
8. नांदघाट	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. डौण्डी	..				
5. डौण्डीलोहारा	..				
6. अर्जुन्दा	..				
7. मा. ब. देवरी	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. डोंगरगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लाल बहादुर नगर	..		4. (1) धान फसल की कटाई का कार्य	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. राजनांदगांव	..		जारी है एवं फसल की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. छुरिया	..		सामान्य है.		
5. डोंगरगांव	..		(2) ..		
जिला-खैरागढ़-	मिलीमीटर				
छुईखदान-गण्डई					
1. खैरागढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छुईखदान	6.8		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गण्डई	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. साल्हेवारा	12.5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	मिलीमीटर				
1. अं.चौकी	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मोहला	..		4. (1) खरीफ फसल की कटाई का कार्य जारी है फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मानपुर	..		(2) ..		
4. औंधी	..				
5. खड़गवां	..				
जिला-कवर्धा-कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. खड़ी फसल की जुताई का कार्य जारी है एवं खड़ी फसल पर छुटपुट कीट प्रकोप की शिकायत है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पंडरिया	1.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बोड़ला	..		(2) ..		
4. सहसपुर लोहारा	..				
5. रेंगाखारकला	..				
6. कुंडा	..				
7. पिपरिया	..				
जिला-बस्तर					
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नानगुर	..		4. (1) धान, मक्का व अन्य फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बस्तर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं.		
4. भानपुरी	..				
5. बकावण्ड	..				
6. लोहण्डीगुड़ा	..				
7. बास्तानार	..				
8. तोकापाल	..				
9. दरभा	..				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मर्दापाल	..		4. (1) धान व मक्का फसल की कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. माकड़ी	..		(2) ..		
4. फरसगांव	..				
5. केशकाल	..				
6. धनोरा	..				
7. बड़ेराजपुर	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छोटेडोंगर	..		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल व गन्ना फसल की सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. ओरछा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर- उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भानुप्रतापपुर	..		4. (1) खरीफ फसल की कटाई कार्य जारी है एवं फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. दुर्गकोन्दल	..		(2) ..		
4. चारामा	..				
5. अन्तागढ़	..				
6. पखांजूर	..				
7. नरहरपुर	..				
8. सरोना	..				
जिला-दंतेवाड़ा- दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. गीदम	..		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. कटेकल्याण	..				
5. बड़ेबचेली	..				
6. बारसूर	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. छिन्दगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सुकमा	..		4. (1) धान, मक्का फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. गादीरास	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. कोन्टा	..				
5. तोंगपाल	..				
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गंगालूर	..		4. (1) धान फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) उपरोक्त फसल सामान्य है.		
4. कुटरू	..				
5. भोपालपटनम्	..				
6. उसूर	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर	..				
5. कोटा	..				
6. सीपत	..				
7. बोदरी	..				
8. बेलगहना	..				
9. बेलतरा	..				
10. रतनपुर	..				
11. सकरी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही	मिलीमीटर				
1. पेण्ड्रारोड	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पेण्ड्रा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मरवाही	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. सकोला	..				
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	3.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. लालपुर	3.2				
जिला-जांजगीर- चाँपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. अकलतरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बलौदा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	..				
5. पामगढ़	..				
6. चाम्पा	..				
7. शिवरीनारायण	..				
8. बम्हनीडीह	..				
9. सारागांव	..				
जिला-सक्ती	मिलीमीटर				
1. सक्ती	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. जैजेपुर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मालखरौदा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. डभरा	..				
5. नया बाराद्वार	..				
6. अडभार	..				
7. हसौद	..				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैसमा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. करतला	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कटघोरा	..				
5. दर्दी	..				
6. पाली	..				
7. हरदीबाजार	..				
8. पोड़ीउपरोड़ा	..				
9. पसान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. दरिमा	..		4. (1) धान, मक्का, उड़द व अरहर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लुण्डा	..		फसल की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सीतापुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. लखनपुर	..				
6. उदयपुर	..				
7. बतौली	..				
8. मैनपाट	..				
जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैयाथान	..		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द व	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. रामानुजनगर	..		मूंगफली फसल की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. प्रेमनगर	..		सामान्य है.		
5. ओड़गी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. लटोरी	..				
7. प्रतापपुर	..				
8. बिहारपुर	..				
9. भटगांव	..				
जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. वाडूरफनगर	..		अरहर फसल की हालत सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर	..		है.		
5. शंकरगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. कुसमी	..				
जिला-कोरिया- बैकुंठपुर	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	..	2. रबी फसल की जुताई का	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	..	कार्य जारी है.	4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पटना	..		अरहर, उड़द, कुल्थी, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
4. बचरा-पोड़ी	..		तिल व रामतिल फसल की		
			हालत सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
जिला-मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर	मिलीमीटर				
1. मनेन्द्रगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. खड़गावां	..		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द, कोदो-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. चिरमिरी	6.0		कुटकी, तिल, रामतिल, कुल्थी,	चारा पर्याप्त.	
4. केलहारी	..		राई व अन्य फसल की हालत		
5. भरतपुर	..		सामान्य है.		
6. कोटाडोल	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	..		4. (1) धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल, अम्बाड़ी, गन्ना व कुल्थी फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.		
4. घरघोड़ा	..				
5. तमनार	..				
6. लैलूंगा	..				
7. मुकडेगा	..				
8. धरमजयगढ़	..				
9. छाल	..				
10. कापू	..				
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़	मिलीमीटर				
1. सारंगढ़	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बरमकेला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सरिया	..		(2) ..		
4. बिलाईगढ़	..				
5. भटगांव	..				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) धान, मूंगफली व तुअर फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	0.2		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. दुलदुला	1.0				
5. फरसाबहार	1.0				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				
9. सन्ना	..				

*टीप :- जिला दुर्ग से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान
उप-आयुक्त, (सां) वास्ते-संचालक,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर.